

# कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/प्रारं/एसआईक्यूई/19509/2017/863-875 दिनांक : 11-9-2018  
उपनिदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा

समस्त

विषय :- एसआईक्यूई अवलोकन प्रपत्रों की ऑनलाईन फीडिंग के संबंध में।

राज्य में एसआईक्यूई का सफल संचालन विगत वर्षों से किया जा रहा है। इस हेतु राज्य के समस्त अधिकारियों द्वारा विद्यालयों में संचालित एसआईक्यूई कार्यक्रम का सतत प्रबोधन किया जा रहा है। विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी एसआईक्यूई के आकलन और स्व-आकलन प्रपत्र विद्यालय अवलोकन के दौरान भरे जाने हैं। राज्य अकादमिक समूह की बैठक दिनांक 29.06.2018 के बिन्दु संख्या 11 के अनुसार सभी पार्टनर के साथ मिलकर तैयार किया गया अवलोकन प्रपत्र संलग्न कर भिजवाया जा रहा है। यह अवलोकन प्रपत्र एसआईक्यूई के संदर्भ में विद्यालयों में प्रक्रिया आधारित अवलोकन हेतु है। इसे अधिकारियों द्वारा विद्यालयों के अवलोकन प्रपत्र भरते हुए निम्नांकित लिंक पर अपलोड किया जाना है।


<http://tinyurl.com/siqe-assessment-2018>

अपलोड किये गये अवलोकनों के आधार पर जिलों की प्रतिमाह रैंकिंग निर्धारित की जायेगी। अधिकारियों द्वारा माह के दौरान किये गये अवलोकन प्रपत्रों की ऑनलाईन फीडिंग आगामी माह की 5 तारीख तक करवाया जाना सुनिश्चित करें।

माह जुलाई और अगस्त, 2018 में किये गये अवलोकन भी 20 सितम्बर, 2018 तक ऑनलाईन करवाये जाने हैं। यदि किसी अधिकारी द्वारा अवलोकन करने के उपरान्त प्रपत्र अपलोड नहीं किये जाते हैं तो उनकी व्यक्तिशः जिम्मेदारी तय की जायेगी।

साथ ही प्रतिमाह समस्त संस्थाप्रधान अपना स्वआकलन प्रपत्र भरकर ऑनलाईन फीडिंग करवाना सुनिश्चित करें। किसी विद्यालय का स्वआकलन प्रपत्र अपलोड नहीं किये जाने की रिश्ति में भी व्यक्तिशः जिम्मेदारी तय की जायेगी।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

  
(श्याम सिंह राजपुरोहित)  
I.A.S.

निदेशक  
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर


क्रमांक : शिविरा/प्रारं/एसआईक्यूई/19509/2017/863-875

दिनांक : 11-9-2018.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर भेजकर लेख है कि आपके अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को अवलोकन कर अपलोड करने हेतु पाबन्द करावे।
4. निजी सचिव, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को भेजकर लेख है कि आपके अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को अवलोकन कर अपलोड करने हेतु पाबन्द करावे।
5. निजी सचिव, निदेशक एसआईईआरटी, उदयपुर।

6. समस्त उपनिदेशक को भेजकर लेख है कि अपने अधीनस्थ जिलों में अवलोकन अधिकारियों को अवलोकन कर अपलोड करने हेतु पाबन्द करें।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा को भेजकर लेख है कि जिले में किए जा रहे विद्यालयों के अवलोकनों को अपलोड करवाएं।
8. समस्त डाइट प्रधानाचार्य को भेजकर लेख है कि अवलोकन करते हुए प्रपत्र अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करें।
9. समस्त बीईईओ एवं पीईईओ को भेजकर लेख है कि आपके द्वारा किए जा रहे अवलोकन निर्धारित समयवधि में अपलोड करवाएं।
10. समस्त संस्थाप्रधान अपने विद्यालय का स्वआकलन प्रपत्र माह के दौरान भरते हुए अपलोड कराएं।
11. कम्प्यूटर अनुभाग प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित कराएं।
12. रक्षित पत्रावली।



निदेशक  
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर







1.2.4	शिक्षक के द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार ही कक्षा में शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है।	2	1	0	
1.2.5	कक्षा स्तर के बच्चों को पीयर शिक्षक के रूप में तैयार कर, क्षमता संवर्धन का कार्य किया जा रहा है।	2	1	0	
1.3	<b>टर्मवार 'आकलन सूचक' अंकन पुस्तिका (चैकलिस्ट) (6)</b>				
1.3.1	कक्षा-कक्षीय प्रक्रिया के दौरान अधिगम क्षेत्रों के सापेक्ष सभी विद्यार्थियों का रचनात्मक आकलन नियमित रूप से किया जा रहा है।	2	1	0	
1.3.2	कक्षा स्तर से न्यून दक्षता वाले विद्यार्थियों का आकलन बुनियादी दक्षता की चैकलिस्ट में अद्यतन संधारित किया जा रहा है।	2	1	0	
1.3.3	प्रत्येक टर्म के अन्त में योगात्मक मूल्यांकन के विभिन्न उपकरणों की मदद से अधिगम क्षेत्र के सापेक्ष विद्यार्थी का योगात्मक आकलन दर्ज किया जा रहा है।	2	1	0	
2	<b>गतिविधि आधारित शिक्षण-अधिगम (कक्षा-कक्ष प्रक्रियाएँ) (40)</b>				
2.1	कक्षा में बालकों को स्वयं करके सीखने, सोचने और समझने का अवसर दिया जा रहा है।	2	1	0	
2.2	कक्षाओं में बच्चों के स्तर के अनुरूप शिक्षण (व्यक्तिगत, समूह और पूर्ण कक्षा) हो रहा है।	2	1	0	
2.3	समूह-2 के बच्चों को स्तर सुधार हेतु अतिरिक्त कार्य करवाया जा रहा है।	2	1	0	
2.4	व्यक्तिगत गतिविधियों में कार्यपत्रकों का उपयोग लेते हुए उन्हें यथोचित तरीके से जाँच किया जा रहा है।	2	1	0	
2.5	बच्चों के आकलन/मूल्यांकन के साक्ष्यों का संकलन करते हुए विद्यार्थी पोर्टफोलियो फाईल का संधारण किया जा रहा है।	2	1	0	
2.6	कक्षा कक्षीय प्रक्रिया में शिक्षण के दौरान शिक्षक-विद्यार्थी संवाद की स्थिति	2	1	0	
2.7	शिक्षक द्वारा तैयार TLM का कक्षा-कक्षीय शिक्षण में उपयोग किये जाने की स्थिति	2	1	0	
2.8	कक्षा-कक्षीय प्रक्रिया के दौरान बच्चों को सवाल पूछने के लिए प्रेरित किया जाता है।	2	1	0	
2.9	शिक्षण के दौरान सहपाठी (पीयर) से अधिगम का अवसर दिया जा रहा है। इसके लिए तेज गति से सीखने वाले और मन्द गति से सीखने वाले बालकों के समूह बनाए गए हैं।	2	1	0	
2.10	सामूहिक गतिविधियों की जा रही है और इस दौरान प्राप्त सीखने के प्रमाण/साक्ष्यों का संधारण किया जा रहा है। जिस पर समूह के सदस्यों के नाम दर्ज हैं।	2	1	0	
2.11	सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से भाषायी कौशलों का विकास किया जा रहा है।	2	1	0	
2.12	कक्षा-3 एवं उससे आगे की कक्षाओं के अधिकांश बच्चों को अपने कक्षा स्तर की हिन्दी की पाठ्यपुस्तक में दी गई विषयवस्तु को समझ और आत्मविश्वास के साथ पढ़ना आता है।	2	1	0	
2.13	कक्षा-3 एवं उससे आगे की कक्षाओं के अधिकांश बच्चों को अपने कक्षा स्तर के अनुरूप दी गई विषय वस्तु समझ के साथ लिखनी आती है।	2	1	0	
2.14	कक्षा-3 एवं उससे आगे की कक्षाओं के अधिकांश बच्चों को अपने कक्षा स्तर की गणित में चारों मूलभूत संक्रियाएँ आती हैं।	2	1	0	
2.15	कक्षा-3 एवं उससे आगे की कक्षाओं के अधिकांश बच्चों को अपने कक्षा स्तर की अंग्रेजी की विषयवस्तु पढ़ना आता है।	2	1	0	
2.16	भाषायी कौशलों के विकास के लिए दीवार पर टेन्स चार्ट लिखा गया है।	2	1	0	



2.17	भाषायी कौशलों के विकास के लिए चयनित 50 क्रिया शब्द लिखे गए हैं।	2	1	0	
2.18	शिक्षक द्वारा कक्षा कार्य/अभ्यास कार्य की नियमित जाँच की जा रही है।	2	1	0	
2.19	कक्षा कार्य/अभ्यास कार्य को जाँचते समय त्रुटियों को चिह्नित कर सुधार कार्य करवाया जाता है।	2	1	0	
2.20	कक्षा 1 से 5 को शिक्षण करवाने वाले शिक्षकों की एसआईक्यूई पर समझ की स्थिति (शिक्षकों से बातचीत के बाद भरें)	2	1	0	
3	<b>सृजनात्मकता और मौलिक चिन्तन (18)</b>				
3.1	प्रत्येक पखवाड़े में भित्ती-पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक बालक की सहभागिता ली जा रही है।	2	1	0	
3.2	पोईट्री ऑफ द डे और पेण्टिंग ऑफ द डे प्रकाशित की जा रही है।	2	1	0	
3.3	पुस्तकालय में बच्चों के स्तरानुसार एन.बी.टी., सी.बी.टी. और प्रथम बुक्स की 100 से अधिक पुस्तकें रखी हुई हैं।	2	1	0	
3.4	पुस्तकालय कालांश में सभी बच्चों को पुस्तकें पढ़ने के लिए दी जाती है (अवदान पंजिका से प्रमाणित करें)।	2	1	0	
3.5	शिक्षकों द्वारा शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में पुस्तकालय की पुस्तकों का उपयोग लिया जाता है।	2	1	0	
3.6	बच्चे शतरंज या ऐसे ही किसी दिमागी खेल को खेलना जानते हैं, जिससे चिन्तन कौशल विकसित होता है।	2	1	0	
3.7	प्रार्थना सभा के संचालन के दौरान हारमोनियम, ढोलक और तबले आदि वाद्ययंत्रों का उपयोग लिया जा रहा है।	2	1	0	
3.8	प्रार्थना सभा में प्रतिदिन राष्ट्रगान हार्मोनियम, ढोलक और तबले के साथ करवाया जाता है।	2	1	0	
3.9	पोईट्री ऑफ द डे, पेण्टिंग ऑफ द डे और भित्ती-पत्रिका प्रदर्शित कार्य बाद में विद्यार्थी पोर्टफोलियो में संधारित किया जाता है।	2	1	0	
4	<b>विद्यालय संचालन में प्रधानाध्यापक और शिक्षक (6)</b>				
4.1	अकादमिक समस्याओं को लेकर प्रधानाध्यापक द्वारा नियमित रूप से शिक्षकों के साथ मासिक बैठक की जाती है (बैठक रजिस्टर से प्रमाणित करें)।	2	1	0	
4.2	बैठक में बच्चों से जुड़े शैक्षिक मुद्दों पर चर्चा कर सर्वसम्मति निर्णय लेकर आगामी कार्ययोजना बनाई जाती है।	2	1	0	
4.3	संस्था प्रधान द्वारा प्राथमिक कक्षाओं का अवलोकन निश्चित समयान्तराल पर किया जाकर रिकार्ड संधारित किया जाता है।	2	1	0	
<b>कुल पूर्णांक 100 में से विद्यालय को प्राप्त अंक</b>					
<b>अवलोकनकर्ता द्वारा विद्यालय का निर्धारित स्तर</b>		<b>बहुत अच्छा</b>	<b>सामान्य</b>	<b>सुधार की आवश्यकता</b>	
1	विद्यालय एबीएल हेतु चयनित है तो एबीएल कक्ष की उपलब्धता की स्थिति	उपलब्ध	उपलब्ध नहीं	चयनित नहीं	
2	विद्यालय में एबीएल किट एवं कक्ष की उपलब्धता की स्थिति	दोनों उपलब्ध	एक उपलब्ध	उपलब्ध नहीं	
3	उपलब्ध एबीएल किट का उपयोग किया जा रहा है।	पूर्ण उपयोग	आंशिक उपयोग	उपयोग नहीं	
4	विद्यालय को TLM हेतु राशि प्राप्ति की स्थिति, प्राप्त राशि का TLM निर्माण में उपयोग की स्थिति तथा तैयार सामग्री के उपयोग के बारे में जानकारी भरें।	प्राप्त एवं उपयोग	प्राप्त व उपयोग नहीं	प्राप्त नहीं	



अवलोकनकर्ता द्वारा समग्र टिप्पणी एवं उन्नयन हेतु सुझाव :-

1. शाला के सन्दर्भ में .....
2. बच्चों के अधिगम स्तर के सन्दर्भ में .....
3. शिक्षकों के सन्दर्भ में .....
4. संस्थाप्रधान के सन्दर्भ में .....

नोट :

1. सूचक की उपलब्धि स्तर के आधार पर कार्य की स्थिति में दिए गए पूर्ण, आंशिक एवं अपूर्ण की स्थिति वाले सम्बन्धित खाने में दिए गए अंक पर सही (✓) का निशान लगावें।
2. प्राप्त स्कोरिंग को दिए गए कॉलम में प्राप्त अंक वाले कॉलम में दर्ज करें एवं योग करें।
3. बिन्दु संख्या 2.6 से 2.15 का आकलन कक्षा-कक्षीय प्रक्रिया का अवलोकन करते हुए करना है।
4. अवलोकनकर्ता के द्वारा आवश्यक रूप से टिप्पणी एवं सुझाव अंकित किया जाना है।
5. विद्यालय के संस्थाप्रधान द्वारा स्व-आकलन एवं अवलोकनकर्ता द्वारा आकलन को (✓) टिक किया जाना है।

हस्ताक्षर संस्थाप्रधान  
नाम : .....

पद : .....

मोबाईल नम्बर : .....

अवलोकनकर्ता के हस्ताक्षर  
नाम : .....

पद : .....

पदस्थापन : .....

मोबाईल नम्बर: .....